

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 361]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 अगस्त 2014—श्रावण 23, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2014

क्र. 65-01-2014-तीन-नपा-721—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में, एतद्द्वारा, नगर परिषद् पीपलरांवा, जिला देवास के माह अगस्त, 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	वार्ड क्रमांक शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 नगर परिषद्, पीपलरांवा, जिला-देवास.	अध्यक्ष	-	-	श्री मनोज पिता रमेशचंद्र चौहान	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
	पार्षद	1	एक	श्रीमती जेतुनबाई पति भारतसिंह सिसोदिया	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
	पार्षद	2	दो	श्री नारायण सिंह पिता देवीसिंह	भारतीय जनता पार्टी
	पार्षद	3	तीन	श्री ताराचंद पिता भागीरथ पांचाल	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
	पार्षद	4	चार	श्रीमती जायदा बी पति जाहीर हुसैन नायता	निर्दलीय
	पार्षद	5	पांच	श्री मधुसुदन पिता खेमचंद्र माली	भारतीय जनता पार्टी
	पार्षद	6	छः	श्रीमती ललता पति नारायण	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
	पार्षद	7	सात	श्रीमती शेरूबी पति शाकीर खां	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
	पार्षद	8	आठ	श्री नोशाद मंसूरी पिता मजीत खां	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
	पार्षद	9	नौ	श्री बालू पिता बाबुलाल नाहर	भारतीय जनता पार्टी
	पार्षद	10	दस	श्रीमती गायत्रा पति शेषनारायण	निर्दलीय
	पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती संगीता पति रामप्रसाद माली	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		पार्षद	12	बारह	श्री मोहन पिता दर्याव	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
		पार्षद	13	तेरह	मांगी बाई	भारतीय जनता पार्टी
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती इकलासबी पति नौशादखां मंसूरी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री घासीराम पिता भागीरथ चौहान	निर्दलीय.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2014

क्र. 65-01-2014-तीन-नपा-722—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में, एतद्वारा, नगर परिषद् टोंकखुर्द, जिला देवास के माह अगस्त, 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	क्रमांक शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 नगर परिषद्, टोंकखुर्द, जिला-देवास.	अध्यक्ष	-	-	श्री महेन्द्रसिंह चावड़ा	निर्दलीय	
	पार्षद	1	एक	तेजूबाई पति देवकरण बामनिया	निर्दलीय	
	पार्षद	2	दो	शबनम - हकिम	समाजवादी पार्टी	
	पार्षद	3	तीन	टीना पति लालसिंह पंवार	भारतीय जनता पार्टी	
	पार्षद	4	चार	हमीदा बी पति सौराफ पटैल	निर्दलीय	
	पार्षद	5	पांच	कौशल्याबाई हरिसिंह सिसौदियां	निर्दलीय	
	पार्षद	6	छः	रऊफ कुरेशी S/o सलीम कुरेशी	निर्दलीय	
	पार्षद	7	सात	महेन्द्र व्यास पिता सदाशिव व्यास	निर्दलीय	
	पार्षद	8	आठ	नितेश धाकड पिता जगदीशसिंह धाकड	निर्दलीय	
	पार्षद	9	नौ	प्रियंका W/o मेहरबान सिंह	निर्दलीय	
	पार्षद	10	दस	नसरीन बी पति आतिक	निर्दलीय	
	पार्षद	11	ग्यारह	रेहमतबी पति खुदाबक्ष पटेल	निर्दलीय	
	पार्षद	12	बारह	आरिफ - यूसूफ पटेल	निर्दलीय	
	पार्षद	13	तेरह	दशरथसिंह कुशवाह पिता कालूसिंह कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी	
	पार्षद	14	चौदह	संतोष श्रीवास	निर्दलीय	
	पार्षद	15	पन्द्रह	वासुदेव पिता कन्हैयालाल सोलंकी	निर्दलीय.	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.